

Ref: JPVL:SEC:2022

17th August, 2022

The General Manager
Listing Department
National Stock Exchange of India Ltd.,
"Exchange Plaza", C-1, Block G,
Bandra-Kurla Complex,
Bandra (E),
Mumbai -400 051
Scrip Code: JPPOWER

The General Manager
Listing Department

BSE Limited,
25th Floor, New Trading Ring,
Rotunda Building,
P J Towers, Dalal Street,
Fort, Mumbai - 400 001

Scrip Code: 532627

Dear Sirs,

Please find attached herewith the Newspaper cutting of pre-dispatch public notice of 27th AGM, 2022, published in Times of India, Bhopal-MP (English), Business Standard-Delhi (English) and Dainik Bhaskar - Singrauli - MP (Hindi) edition, all dated 17.8.2022.

You are requested to take the above information on records.

Thanking you,

Yours faithfully, For Jaiprakash Power Ventures Limited

(Mahesh Chaturvedi)

G.M. & Company Secretary

FCS: 3188

Encl: As above





Corp. Office: 'JA House' 63, Basant Lok, Vasant Vihar, New Delhi-110057 (India) Ph.: +91 (11) 26141358 Fax: +91 (11) 26145389, 26143591

Regd. Office: Complex of Jaypee Nigrie Super Thermal Power Plant, Nigrie Tehsil Sarai,

Distt. Singrauli-486669, (M.P.) Ph.: +91 (7801) 286021-39 Fax: +91 (7801) 286020

E-mail: jpvl.investor@jalindia.co.in, Website: www.jppowerventures.com

CIN : L40101MP1994PLC042920

#### Aadhar Housing Finance Ltd.

Aadhar

GENERAL NOTICE FOR RELOCATION/ SHIFTING OF BRANCH OFFICE OF THE COMPANY This is to notify the General Public, Customers and Deposite
Housing Finance Limited (AHFL), that one of the branches lo
Above lindal lewellers, Napar Palika No. 17/14A/9F, Baninur M.

Date : 16.08.2022



State Bank of India, Stressed Assets Recovery Branch 3rd Floor, Matrix Mall, Sector – 4, Jawahar Nagar, Jaipur (Rajasthan) -302004, E-mail: sbi.18184@sbi.co.in,

#### Appendix - IV-A [See Proviso to rule 8(6)]

Sale Notice for Sale of Immovable Property (Under SARFARS) Act Read with Proviso to Rule 8(8) of the Security Interest (Enforcement) Rules). Excludion Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation of Reports of Sale (1) of the Security Interest (Enforcement) Rules). Excludion Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reports of Rules 8(9) of the Security Interest (Inforcement) Rules, 2002 read with proviso to Rule 8(9) for Security Interest (Inforcement) Rules, (in Publication Rules). Which is the Security Interest to the Security Interest (Inforcement) Rules, (in the physical possession of which has been taken by the Authorised Officer of State Bank of India the Secured Creditor with the Security Interest (Inforcement) Rules, is What is "Materia: There there is "and "Without the equation of "Asia Wither is". As I What is "Materia: The security Rules of "Without the Publication Rules" (Inforcement) Rules which has been taken by the Authorised Officer of State Bank of India the Secured Creditor will be equicated or 70.4 is 1 Where is "A sis What is "Muse the Property there is "an office of State Property of Res. 224,7833". (Rupees Thirty We Labiks Prof. Seven Thousand Nine Hundred Beighty Three only) as on 270.7222 just further forty Seven Thousand Nine Hundred Beighty Three only) as on 270.7222 just further strong the state of the Property of Res. 224,7833". (Rupees Thirty We Labiks State Stat

	Reserve Price	Time
with known encumbrances	EMD Amount	111116
All that part and parcel of Equitable Mortgage of Industrial Property situated at Khasara No. 498/214. Gram Raias. Gram Panchavat		01:00 PM
Govindi, Tehsil Nawa, District- Nagaur, Rajasthan Measuring	Rs. 1.34.700/-	to 02:00 PM
0.4538 Hectare out of total 0.82 Hectare in the name of Late Shri Jaipal Poonia S/o Shri Desharam Poonia. <b>Bounded bv</b> - North:		
State Highway, South: Land of Khasara No. 221, East: Remaining		
Land of Khasara No. 498/214, West: Land of Khasara No. 215		

therested bidder may deposit Pre-Bid EMD with MSTC before the close of e-Auction redit of Pre-bid EMD shall be given to the bidder only after receipt of payment in MSTC ank account and updation of such information in the e-auction website. This may tak

mbrances; Notknown letaleid Terms and Conditions of the sale, please refer to the link provided in Stat col India, Stressed Assets Recovery Branch (SARB), Jaipur (Raj.), Secure litr's https://slo.c.in/meb/sib-in-the-news/auction-notices/sarfaesi-and-other rttps://ibapi.in/Sale\_Ind\_Home.aspx

#### M/s. UJALA PUMPS PRIVATE LIMITED IN LIQUIDATION

(CIN: U2912ODL1992PTC176351)

Regd. Office: G- 27, East Gokulpuri, Loni Road, Shahdara, New Delhi-10094 E-AUCTION SALE NOTICE

is hereby given to the public in general under Section 35(1) (i) of the Insolvency and Bankin. 2016. Regulation 33 of Insolvency and Bankingty Board of India (Liquidation Pro-Liquidation Pro-Liquidation (1914). (I) of the Section 32(1) of the Section 33(1) of the Section 33(1) of Insolvence and Section 33(1) of Friday, 2<sup>nd</sup> September, 2022 between 12.00 p. m. to 5.00 p. m. with unlimited extension of 5 minutes each.

Last Date for Submission of bid forms and EMD		On or before 5.00 p. m. of the Tuesday, 30 <sup>th</sup> August, 2022.				
No.	Description and Address of the contin intended to be sold	(in Rs.)	EMD (in Rs.)	Bid incremental value (in Rs.)		
BLOCK A	Assignment of part of avoidance application IA: 158/2020 in CP No. : (IB)-43(ND)/2018 pertaining to trademark "UJALA"		4,12,50,000	41,25,000	4,13,000	
BLOCK	Assignment of part of avoidance applica- tion IA: 158/2020 in CP No. : (IB)-43(ND) /		070 47 70 000	07.04.77.000	0.70.00.000	

	2018 pertaining to amount recoverable from	212,41,10,000	21,24,11,000	2,73,00,000
	ex-director/s.			
	(refundable) shall be payable by interested b			
	30.08.2022 in the account of "M/s. UJALA I			
	ccount No. 627901010050567 with Union E			
	DE UBIN0562793, or by Bank Guarantee OF			
	RCIAL BANK favouring "M/s. UJALA PUI			
For deta	illed terms & conditions of E-auction sale,	refer TENDER	R DOCUMENT	S available on
	uctions.co.in. For any query regarding			

### JAIPRAKASH POWER VENTURES LIMITED CIN: L40101MP1994PLC042920

Member(s).

Olice is hereby given that the Twenty Seventh Annual General Meeting of company ("27" AGM") will be held on Saturday, the 24" September, 2022 rough Video Conference ("VC") Other Audio Visual Means ("OAM") cilily in compliance with the applicable provisions of the Companies Act 131 and Rules trained thereunder and the SEBI (Listing Obligations and 131 and Rules trained thereunder and the SEBI (Listing Obligations and 131 and Rules trained phreumber and the SEBI (Listing Obligations and 132 and Rules ("Admitted Obligations and "131 and Rules ("Admitted Obligations and "132 and "133 and "134 and "13

Securines and exclusing electric in floats y Securines of Carbon I), which unler physics in the Part of the Carbon III will be presented by the Part of Carbon III when the Carbon III was a considered with the Company or with their respective Report'l will be sent only by email to all those Members, whose emal addresses are registered with the Company or with their respective Cortadar's and the SEBI Circular Members can join and participate in the 27"AGM will be provided the SEBI Circular Members can join and participate in the 27"AGM will be provided registered to the Carbon III will be provided the SEBI Circular Members can join and participate in the SEBI Circular Members can join and participate in the 27"AGM will be provided registered to the SEBI Circular Members can join and participate in the SEBI Circular Members can join and participate in the SEBI Circular Members and participate in the series of SEBI Limited is Company is www.spoower-entures.com and the website of the SEBI Circular Members and join shares in obvised from who have not recisitent filter emals.

www.beindia.com. and NSE at www.nseindia.com.

Members holding shares in physical form who have not registered their ema
addresses with the Company/Depository can register their email addresses
with the Company by sending scanned copy of the following documents to
email to juvi investor (gjaliniac coin:
the complete addressed their mentioning your name, folio number an
complete addressed tester mentioning your name, folio number an
complete addressed scanned copy of the PAN Card; and
c. self attested scanned copy of any document (such as AADHAR Card
Driving Leerse, Election Identity, Card, Passport) in support of the
Driving Leerse, Election Identity, Card, Passport on your control of the properties of th

The Register of Members and Share Transfer Book of the Company sh remain closed from 22.09.2022 to 24.09.2022 (both days inclusive). The above information is being issued for the information and benefit of all the Members of the Company and is incompliance with the MCA Circular/s and

....

For JAIPRAKASH POWER VENTURES LTD ate : 16" August, 2022





Hero FinCorp Limited CIN: U74899DL1991PLC046774 Regd. Office: 34, Community Centre, Basant Lok, Va Vihar, New Delhi-110057, Phone: 011-4948 7150 | Fax: 011-4948 7197-98

Phone: 011-4948 713v | 1-m-1
E-mail: Higgstion@herofincorp.cor
Website: www.herofincorp.cor
Website: www.herofincorp.cor
Size of the Community of the State of th

, 2002 issued a Demand Notice dated 23/06/2021 calling upc MR. M/S TECHNO TREXIM INDIA PVT LTD. A Company rec Companies Act 1956, Having its Registered Office UM Ho

Sector 44, Gurgaon, Haryana
MR. VERINDER KUMAR CHHABRA 5(o Mr. Kesho Nath Chhabra
Farm no. 60, Prakriti Marg. Sultanpur, MG Road, Mehrauli, South Delhi 11003
MR. SUSHANT CHHABRA 5(o Mr. Verinder Kumar Chhabra
Farm no. 60, Prakriti Marg. Sultanpur, MG Road, Mehrauli, South Delhi 11003
MRS. BEIA CHHABRA D/o Mr. Fagir Chand Gupta
MRS. BEIA CHHABRA D/o Mr. Fagir Chand Gupta

Farm no. 60, Prakriti Marg, Sultanpur, MG Road, Mehrauli, South M/S GESSUP LOGISTICS FINANCE PVT. LTD. F-345, Lado Sa 110030

M/S INSTRONICS LTD. F-345, Bank Wali Gali, Lado Sarai, New M/S SAB HOLDING (INDIA) PVT. LTD. 806, Devika Tower 6, N

110019
a amount mentioned in the notice being Rs.98,04,68,644.58/- (Rupee
ht Crore Four Lakh Sixty Eight Thousand Six Hundred Forty Four an
Eight Only), along with interest as on 22/06/2021 within 60 days fror
receipt of the said notice.

d herein below in exercise of powers conferred-tion 13 of Act read with Rule 8 of the Sec 02 on this **the 12<sup>th</sup> day of August, 2022** by and the public in general in hereby cautions

#### DESCRIPTION OF IMMOVABLE PROPERTIES IS AS UNDER:

AT PIECE AND PARCEL OF PROPERTY BEING UM HOUSE PICOT NO. 3 S.CO.

ON HARYMAN FORCHER WITH ALL APPURTENANCES AND BUIL

NO OWNED BY MYS TECHNO TREAM INDIA PVT LID

LAUG OF PROPERTY DUIDED AS LUNGED

OUT PROPERTY ILE SECONO FLOOR LEASED TO GOORE DEVE

THE LIP AND THIME FLOOR LEASED TO GOORE INFORMATION

TOWER – A, PLOT NO. 35, SECTOR –44, GURGAON ALONG WITH TE

#### VISTAR AMAR LIMITED

Reg. Off.: Plot - A4, APMC - MAFCO Yard, Sector 18, Vashi, Nawi Mumbai - 400703 Tel: -91 22 27880820
Email: roc.shubhra@qmail.com Website: www.vistaramar.com CIN No:: L05000MH1983PLC272707 NOTICE

In continuation to our newspaper advertisement dated 12" August 2022, NOTICE is hereby given that the 38" Annual General Meetin ("AGM") of Ms. Vistar Amar Limited will be held on Tuesday 31" September, 2022 at 03:00 p.m. (IST) through Video Conferencing ("CV) Other Audio Vusual Maena ("OAM") without physical presence of Member at the AGM venue, to transact the business as set out in the Notice of AGM which is being sent to members through enails, separately.

Mombail — 1607703.

In view of the continuing COVID-19 pandemic, the 38th AGM of the Company is being held through VC/ DAM only, which is in compliance with all the applicable provisions to the Companies Act, 2013 and Rules made there under (the Act), read with General Circular nos. 20/200. 20/2021, 19/2021, 19/2021 and 02/2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and Circular no. SEEN-HO/CPD/CMD/CMD/CRD (Incompanies). The companies of the companies of the said Circulars, the Notice of the 38th AGM along with the Annual Report for FY 2021-22 alongwith Board's Report, Auditor's Report and other documents required to be attached thereto is being sent only through electronic mode to the Members of the Company whose email IDs are registered with the Company' Depositories and also being made available the website of the Stock Exchange i.e. www. besimical.com and on the website of the Stock Exchange i.e. www. besimical.com and on the website of the CDSL www. evolinging electronic mode to Stock Exchange i.e. www. besimical.com and on the website of CDSL, appointed by the Company for providing physical copies of the Notice of 38th AGM and Armual Report to the Members of CDSL www. evolinging electronic and the Notice of 38th AGM and Armual Report to the Members of though remote e-volting and e-volting at the AGM of Members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for Members who have not registered their email address is being provided in the Notice of AGM. Members are requested to register your email id, if not already registered. The continuity of the AGM and the Notice of AGM. Members are requested to register your email id, if not already registered in containing Amma Report and User ID passavorid for e-voling using shares in dematerialized mode, physical mode and for Members holding shares are registered with the Company after email address is being provided in the Notice of AGM. How the AGM and the AG

....

the Notice of AGM shall be a. 13th September, 2022. For Vistar Amar Limited Rajeshkumar Panjar Managing Directo DIN No. 0026189

#### KEI INDUSTRIES LIMITED

Notice is hereby given that the 30th Annual Ge KEI Industries Limited is scheduled to be held at 03.30 P.M through Video Conferencing ("VC 

In case you have not registered your email ID with the Company/RTA/Depository please follow below instructions to register your email ID for obtaining Annual Report to FY 2021-22 and login details for e-volting.

22 and organisation of evolution of the process of

your particulars limely.
PLEASE UPDATE THE SAME ON OR BEFORE 31/08/2022

Shareholders are requested to Register / Update their details in their account as per the process advised by Depository Participant (DP).

Dental Sheeholders are requested to Register / Update their details in their demat holding in their particular per the process avies dely Depository Participant (DP) PLRSE UPDATE THE SAME ON OR BEFORE 3108/2022. In compliance with the Companies (Mariagement and Administration) Rules, 2014 as a memode and Registation 4 of SEBI (Listing Oldsgations and Disclosure Requirements) Regulations, and SEBI (Listing Oldsgations and Disclosure Requirements) Regulations, National Services Depository. Limited (NSDL) through their portal wave verying general conditions and backers of the remove control of the remove of the re

Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that the Registe Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 11 the September 01, 2022 to Wednesday, September 07, 2022 (both days included by upose of taking record of the shareholders at the Annual General Meeting.

the purpose of taxing record of the snareholders at the Annual s-eneral Meeting. The Notice of the AGM and the Annual Report is also available on the Company's websitic at www.kel-ind.com, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and Nations Stock Exchange of India Limited at www.bselindla.com and www.nselindla.com respectively, and on the website of NSDL https://www.evolting.nsdl.com.

For KEI Industries Limite

Place: New Delhi Date: 16th August, 2022

#### Centre for Aromatic plants (CAP)

Industrial Estate, Selaqui - 248011, Dehradun (Uttarakhand) Telefax - 0135-2698305,

E-mail: cap.dun@gmail.com Website www.capuk.in.

#### e-Tender Notice No 06/CAP/2022-23

e-tenders are invited from the Manufacturers for the supply installation and commissioning of Mobile Distillation Unit-1 No. (5 Qtl, 2000 L capacity) to be fitted on Truck Chassis The terms and Conditions of tender document along with other information can be downloaded from e-tendering website of Uttarakhand Government www.uktenders.gov.ir from 19th Aug, 2022 to 02nd Sept, 2022. The cost of tender is Rs. 1180/- including GST. EMD is Rs. 70,000/- (Rupees Seventy thousand only). The tender can only be applied through e-tendering procedure on the website <a href="https://www.uktenders.gov.in">www.uktenders.gov.in</a>. The last date of applying and submission of tender is 02nd Sept, 2022.

#### WORLDWIDE ALUMINIUM LIMITED

EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER / THREE MONTHS ENDED ON 30TH JUNE, 2022

			(In Lakhs ex	cept for EPS)
Sr. No.	Particulars	Quarter Ended on 30-06-2022	Year to data Figures as on 31-03-2022	Corresponding Quarter Ended as on 30th June, 2021
1	Total Income (From operations & Other Income)	596.73	267.28	0
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or extraordinary items)	(8.49)	1.97	(8.85)
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional/extraordinary items)	(8.49)	1.97	(8.85)
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (After Exceptional/ extraordinary items)	(8.49)	1.40	(8.85)
5	Total Comprehensive Income for the period Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	0	0	0
6	Equity Share Capital	328.63	328.63	328.63
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as per the Audited Balance Sheet of the previous year	278.52	287.00	276.77
8	Earnings Per Share of Rs. 10/- each (for continuing and discontinued operations) (not annualized)	(0.26)	0.04	(0.27)
Not	es:			

The above is an extract of the detailed format Quarterly Financial Results filed withe Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Dischous Requirements) Regulations, 2015. The full formats of the QuarterlyMine Montiferended Financial Results are available on the velocite of the Stock Exchange, Li www.bseindic.com and the website of the Company, i.e., www.wsbi.mid.com.

The above financial results are in accordance with Indian Accounting Standard (IND AS) as prescribed uls 133 of the Companies Act, 2013, read with rule of the Companies (Indian Accounting Standard) Rules, 2015 as amended fro

For Worldwide Aluminium Limit

Place: New Delhi Date: 16.08.2022

Abhishek Jair (Joint Managing Director DIN : 0280144



Registered Office: 205-206, J. K. Chambers, Sector 17, Vashi, Navi Mumbai – 400 703, India. Website: www.nax/arcls.com; Chit. E3000MH:2008PLC187146 Tal No: 91-22-2766 8223 Fax No: 91-22-2766 8238 Corporate Office: 13th Floor, Goodwill Infinity, Plot No. E73A, Sector 12, Kharghar, Navi Mumbai – 410/210, Maharashtra, India Tel: (+91 22) 4800 6500 Fax: (+91 22) 4800 6509 E-mail: cs@navkarcfs.com

#### NOTICE

Notice is hereby given that the 14th (Fourteenth) Annual General Meetin (\*AGM\*) of the Members of NAVKAR CORPORATION LIMITED will be held or Wednesday, September 07, 2022 at 10:30 A.M. (IST) at Hotel The Regenza bi Tunga, Plot No.37, Sector 30-A, Vashi, Navi Mumbai – 400703, India.

I larga, Plat No.37, Sector 30-N, Vasin, Nava Munitroal — 400 / 105, midd.

The Annual Report for the financial year 2021-22 Including notice calling 14th AGM has been sent to members who have registered their address by courier and electronically to those members who have registered their and address with the Depositories. These documents are also available on the Company website www.navkarcfs.com, websites of the Stock Exchanges Lei 85E Exchanges Lei 85E Exchanges Lei 85E Exchanges Lei 85E and on the website of Central Depository Services India Limited (\*CDSL) at www.vesindia.com and www.nseindia.com respectively and on the website of Central Depository Services India Limited (\*CDSL) at www.vesinginida.com.

Services India Limited (\*CDSI) at www.evolinpindia.com.

Pursuant to Section of 1 of the Companies Act. 2013 (\*the Act) and rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (\*the Rules) and in accordance with Regulation 42 the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (\*SEBI Regulations), 11 is hereby informed that the Regulster of Members and Shared Transler Books of the Company will remain closed from September 07, 2022 (both days inclusive) for the purpose of AGM. Members are hereby informed that in compliance with the provisions of Section 108 of the Act read with rule 20 of the Rules as amended from time to time and Regulation 44 of SEBI Regulations, the Company is providing to the members the facility to exercise their right to vote at the AGM by electronic means and business may be transacted through e-voiling services (remote e-voiling) provided by the CDSL.

Members are requested to note the following:

(A) A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date is Wednesday, August 3, 12022 shall be entitled to avail actility of remote e-voting as well as voting at the 14th Annual General Meeting.

(B) The remote e-voting period commences on Saturday, September 03, 2022 (9.00 a.m. IST) and close on Tuesday, September 06, 2022 (5.00 p.m. IST).

(C) The facility for voting by Ballot paper shall also be made available at the AGM and Members attending the Meeting who have not already cast their vote by remote e voting shall be able to exercise their right at the meeting.

mbers who have cast their vote by remote e-voting prior to the meet

may also attended meeting jourshain note cerimineut oacts timer vive again. (E) Detailed procedure for e-voting is provided in the Notice of the 14th Ann General Meeting, Any person who becomes a member of the Company after dispat of the Notice and holds shares of the Company as on the Leu-off date ie. When August 31, 2022 may obtain his User ID and Password by sending an email helpdesk evolution-Gedshirdia com.

represense rounting cosminations.

(F) If you have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the e Voting System, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQS") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk evoting@cdslindia.com.

(G) Contact details for grievances connected with the facility for voting by electronic means: Mr. Fakesh Dalvi, Deputy Manager. (CDSL) Central Depository Services (Indica) Limited, 4 Mwg. 25th Floor, Martano Frutuers, Mattala MII Compounds, M Mrag. Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk, evolving-decisitings com or call of 1000/225 58.

••••

Date : August 16, 2022 Place : Navi Mumbai

By Order of Board of Directors For Navkar Corporation Limited . Deepa Gehani Company Secretary

#### **OLYMPIC OIL INDUSTRIES LIMITED**

Cin: L15141MH1980PC022912

Regd. Off:: 709, C Wing, One BKC, Near Indian Oil Petrol Pump, G Block, BKC, Bandra (East), Mumbai - 400051

Tel:: 9122 2654 0901 E-Mail ID: (vmpicoilltd@pmail.com Website: www.olympicoil.co.in Fax: 9122 26520906

Website: www.olympicol.co in Fax: 91.22 265:20906

NOTICE TO MEMBERS REGARDING 42" ANNUAL GENERAL MEETING THROUGH VIDEO CONFERENCING / OTHER AUDIO VISUAL MEANS

Members may please note that the 42" Annual General Meeting ("AGM") of Olympic Oil Industries Limited ("the Company") will be held through Video Conferencing ("VC") facility / other audio visual means ("OAWM") on Saturday, September 24, 2022 without the physical presence of the Members at a common venue in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and the Rules framed thereunder and Securities and Exchance Board of India (Usiting Delilations and Disclosure 2013 ('the Act') and the Rules tramed thereunder and Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circulars dated April 8, 2020, April 3, 2020, May 5, 2020, January 13, 2021. December 08, 2021, December 14, 2021 and May 05, 2022 Issued by the Ministry of Corporate Affairs' (MAG Circulars') and Circular dated May 12, 2020, January 15, 2021 and May 13, 2022 Issued by the Securities and Exchange Board of India ('SEGI Circular') to transact the businesses that is set forth in the Notice of the AGM.

transact the businesses that is set forth in the Notice of the AGM. In compliance with MCA Circulars and SEBI Circular, the Notice of the AGM along with the Annual Report for the financial year 2021-22 will be sent only by e-mail to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company/Depository Participant(s). The Notice of the AGM and the Annual Report for Financial Year 2021-22 will be made available on the Company's website at http://olympicoli.co.in/ and can also be accessed on the websites of the Stock Exchange i.e. at www.bseindia.com.

the websites of the Stock Exchange i.e. at www.bseindia.com. Members can attend and participate in the AGM through the VC facility / OAVM ONLY, the details of which are provided by the Company in the Notice of the AGM. Accordingly, please note that no provision has been made to attend and participate in the 42<sup>rm</sup> AGM of the Company in person to ensure compliance with the directives issued by the government authorities with respect to Covid-19. Members attending the Meeting through VC facility / OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

under Section 103 of the Companies Act, 2013. As per the MCA and the SBB (Tirculars, no physical copies of the Notice of AGM and the Annual Report will be sent to any Member. Members who have not vet registered their e-mail addresses with the Company/Depository Participant are requested to follow the process mentioned below, for registering their e-mail addresses to receive Notice of the AGM, Annual Report and/or login details for joining the 42<sup>rd</sup> AGM through VC facility / OAVM, including e-voting

receive Notice of the AGM, Annual Report and/or login actains vor joining the 42"—AGM through VC facility / OAVM, including e-voting Physical

Physical

Send a request to the Registrar and Transfer Agents of the Company Link Intime Private Limited at mt. Holding in the Agment of the Company Link Intime Private Limited at mt. Holding in the Sender of the Member, along with scanned copy of the share certificate (front and back), self-attested copy of the PAR card and self-attested copy of any document (eg.: Driving License, Election Identity Card, Passport) in support of the address of the Member

Demat

Please register / update your email addresses with Holding your Depository Participant (DP) as per the process advised by the DP.

The Company is providing remote e-voting facility to the members to cast voting rights using an electronic voting system from a place other than venue of the Meeting ("remote e-voting"). The members will also be given an opportunity to cast votes electronically during the AGM ("evoting"). The manner of e-voting including remote e-voting is provided in the Notice of the AGM.

For Olympic Oil Industries Limited Sd/-Nipun Vermans

••••

# खोखले विकास की बदहाल तस्वीरःखटिया पर साढ़े तीन किमी पैदल चल घर ले गए शव, कीचड़ भरा रास्ता और नदी-नाला पार किया

भास्कर न्यूज बुरहानपुर/धुलकोट

धुलकोट से साढ़े तीन किमी दूर सैलानी बाबा फालिया। दर्जन भर ग्रामीण खटिया पर युवक का शव लेकर कीचड़ भरे रास्ते और नाले के बीच से होकर गुजरे। खासी दिक्कतें झेल कर शव घर पहुंचाया। आजादी के 75 साल बाद भी विकास के खोखले दावों के बीच यह बदहाली की सच्ची तस्वीर है। लेकिन धुलकोट क्षेत्र के 45 फाल्यों के हजारों आदिवासियों के लिए यह आम बात है। क्योंकि आजादी के बाद भी यहां आज तक पहुंच मार्ग नहीं बन पाए हैं।सर्पदंश से मौत के बाद जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराकर मृतक बबलू डाबर का शव गांव पहुंचाया गया। ग्रामीण लोडिंग वाहन से शव को रूपारेल नदी तक लेकर पहुंचे। यहां से आगे चार पहिया वाहन जा नहीं सकते। साढे तीन किमी का रास्ता पार करने के लिए शव को खटिया से बांधा और इसे उठाकर पैदल ही चल पड़े। साढ़े तीन किमी के रास्ते में रूपारेल नदी की टूटी हुई पुलिया और एक नाला पार किया। पूरे रास्तेभर लोग कीचड़ के बींच से गुजरे और शव को फालिए तक पहुंचाया।



गांव में ही ओझा को दिखाया, झाड़-फूंक के दौरान तोड़ा दम

सैलानी बाबा फालिया में सोमवार दोपहर 3 बजे 22 वर्षीय बबल पिता मालसिंह डाबर को सांप ने डंस लिया था। बबलू पशुओं के बाढ़े में गया था। चारा हटाते समय उसे सांप ने डंस लिया। वह चीखता हुआ बाहर आया। परिजन उसे गांव के ही ओझा के पास ले गए। वह झाड़-फूंक कर रहा था, इसी दौरान बबलू ने दम तोड़ दिया। पुलिस को सूचना मिलने पर शव को खटिया पर रखकर ही ग्रामीण मुख्य सड़क तक ले गए। इसके बाद वापस लाते समय भी यही रिथति बनी।

लिए सीधा रास्ता नहीं अनूपपुर: नर्मदा के उफान पर आते ही ट्यूब के सहारे ग्रामीण गांव तक लाते हैं

भारकर न्यूज अनूपपुर। जिले के अंतिम छोर पर बसे ग्राम ठाडपाथर ऐसा गांव हैं जहां बारिश का मौसम प्रारंभ होते ही संपर्क पूरे जिले से कट जाता है। गांव के एक तरफ उफान पर नर्मदा तो दूसरी ओर मख्य मार्ग से गांव तक लगभग 3 किलोमीटर की दूरी तक घुटनों से ऊपर तक का कीचड़। ऐसे में वाहन व एंबुलेस का गांव पहुंचना तो दूर, पैदल चलना तक मुश्किल हो जाता है। ग्रामीणों की परेशानी का ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ इसमें ठाढ़पाथर ग्राम के लोग ट्यूब के सहारे ही नर्मदा पार कर शव लेकर गांव पहुँच रहे हैं। दरअसल रविवार को ग्राम ठाड़पाथर निवासी 55 वर्षीय विशमत नंदा को दिल का दौरा पडऩे पर इलाज के लिए नजदीकी डिंडोरी जिला चिकित्सालय ले जाया गया। वहां इलाज के दौरान



असीर से धुलकोट

फाल्या में पहुंचने के

तक १७ पंचायतों के ४५

मौत के बाद परिजन शव को सरकारी वाहन से लेकर बजाग के ग्राम पथरकूचा तक लाया गया। यहां नर्मदा नदी में बाढ़ के बाद परिजन ट्यूब के सहारे शव को नदी पार करवाकर गांव लेकर पहुंचे। पुरे मामले की जानकारी ली गई है

हृदयाघात होने की वजह से ग्रामीण की मौत हुई थी, वहीं सडक़ मार्ग की व्यवस्था को दुरुस्त कराया जाएगा। **-सोनिया मीना**. कलेक्टर. अनपपुर

# किशोरी से गैंगरेप, दो आरोपी गिरफ्तार

रीवा गुढ़ थाना क्षेत्र में किशोरी से गैंग रेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने आरोपियों को जेल भेज दिया है। पुलिस ने बताया कि गत दिवस किशोरी अपने गृह गांव से दूसरे गांव कजलियां पर्व मनाने गई थीँ। वापस लौटते हुए आरोपी जबरदस्ती किशोरी को पहाँडी की ओर ले कर चले गए। जहां उन्होंने ने किशोरी से रेप किया। किशोरी ने अपने साथ हुई वारदात को दो दिन तक छुपाए रखा। घटना की जानकरी सामने आने के बाद परिजन युवती को लेकर थाने पहुंचे और एफआईआर दर्ज कराई। गैंग रेप के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में सुखलाल कोल 25 वर्ष और विनोद उर्फ मल्ला कोल शामिल है।

# वीरता पदक से अधिकारी-कर्मचारी हुए सम्मानित



भारकर ब्यूरो भोपाल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर आजादी के अमृत महोत्सव में लाल परेड ग्राउंड भोपाल में राज्य स्तरीय समारोह में पुलिस, जेल और नागरिक सेवाओं के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों को राष्ट्रपति के वीरता, विशिष्ठ सेवा और सराहनीय सेवा पदकों से सम्मानित किया। गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने वीरता विशिष्ठ सेवा, नागरिक सुरक्षा और सराहनीय सेवा पदकों से सम्मानित 78 अधिकारी-कर्मचारियों को बधाइयां और शुभकामनाएं दी।

### वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक

सागर पुलिस अधीक्षक तरूण नायक, रतलाम पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, कनकी बालाघाट हॉक-फोर्स के सहायक सेनानी रवि द्विवेदी, उप निरीक्षक हिम्मत सिंह, विपिन खलको, राम पदम, अजीत सिंह और सहायक उप निरीक्षक बैसाख्र लाल को वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक प्रदान किया गया। पुलिस मुख्यालय में पदस्थअतिरिक्त पुलिस महानिदेशक. (अजाक) राजेश कुमार गुप्ता. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (गुप्तवार्ता) आदर्श कटियार, अतिरिक्त पुलिसं महानिदेशक (प्रशासन) डी. श्रीनिवास राव, संचालक खेल एवं युवा कल्याण विभाग डॉ. रवि कुमार गुप्ता, पुलिस कमिश्नरेट इंदौर के उप पुलिस अधीक्षक रेडियो सुभाष सिंह, निरीक्षक रेडियो भोपाल (सेवानिवृत्त) प्रमोद पीटर, निरीक्षक (एम) पीएस टु डीजीपी भोपाल निरंजन कुमार श्रीवास्तव और कार्यवाहक सहायक उप निरीक्षक, सीआईडी

।राष्ट्रपति

पदक

प्राप्तकर्ताओ

का सम्मान

भोपाल लल्लुराम त्यागी को विशिष्ठ सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक प्रदान किया गया। जेल विभाग में राष्ट्रपति पदक जेल

अधीक्षक, केन्द्रीय जेल जबलपुर गोपाल प्रसाद तामकार, जेल अधीक्षक (सेवानिवृत्त) क्षेत्रीय जेल प्रबंधन भोपाल रमेश चंद्र आर्य. जेल अधीक्षक जिला जेल हरदा महावीर सिंह रावत और मुख्य प्रहरी केन्द्रीय जेल सतना ब्रजराज सिंह बघेल को जेल विभाग में विशिष्ठ सेवा के लिए राष्ट्रपति पढक प्रदान किया गया।

नगर सेना तथा नागरिक सुरक्षा के लिए विशिष्ठ सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक-डिवीजीनल कमाडेन्ट होमगार्ड इंदौर भोजपाल वर्मा और डिस्ट्रिक्ट कमाण्डेन्ट होमगार्ड छतरपुर के करण सिंह को नगर सेना तथा नागरिक सुरक्षा में विशिष्ठ सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक प्रदान किया गया।

# सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक

पुलिस कमिश्नर इंदौर हरिनारायणचारी मिश्र, पुलिस महानिरीक्षक सागरअनुराग, पुलिस अधीक्षक ग्वालियर अमित साँघी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीमच सुंदर सिंह कनेश, सहायक पुलिस महानिरीक्षक ई.ओ.डब्ल्यू. भोपाल सुपल्लवी त्रिवेदी, पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त भोपाल मनु व्यास,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उप परिवहन आयुक्त कार्यालय ग्वालियर दिलीप सिंह तोमर, पुलिस अधीक्षक एमटीएस, रीवा महेन्द्र कुमार छारी, उप सेनानी 23वीं वटालियन रामप्रताप पटेल, उप सेनानी प्रथम बटालियन इंदौर चंद्रशेखर कौशिक. सहायक पुलिस महानिरीक्षक सीआईडी ध्यान सिंह चौहान, सहायक पुलिस आयुक्त इंदौर हरि सिंह रघुवंशी, उप पुलिस अधींक्षक एसबी. पु.मु. भोपाल ओम प्रकाश श्रीवास्तव, उप पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त म.प्र. भोपाल सूर्यकांत अवस्थी, सहायक पुलिस आयुक्त हीरानगर, इंदौर धैर्यशील येवले और निरीक्षक लोकायुक्त वीरेन्द्र कुमार सिंह, निरीक्षक ईओडब्ल्यू डॉ. विनेश जोशी, निरीक्षक रेडियो मुख्यालय सुरेश कुमार गुप्ता, निरीक्षक (एम) पीए ट् पुमनि कार्यालय ग्रामीण इंदौर सुनील कुमार जैन, सुबेदार (एम) प्रशासन हिमांश्रु त्रिवेदी, सुबेदार (एम) आरएपीटीसी इंदौर विनोद कुमार भटेवरा, उप निरीक्षक (एम) सीधी (स्व.) रामसुंदर सोंधिया, उप निरीक्षक (एम) प्रबंध राम बहोर वर्मा, उप निरीक्षक (एम) प्रशासन संजय सुधाकर निरखे, उप निरीक्षक रेडियो पुलिस प्रशिक्षण शाला इंदौर हरेन्द्र क्रमार चन्द्रायन, (कार्यवाहक) उप निरीक्षक पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय इंदौर हरि प्रसाद तीलवे, सहायक उप निरीक्षक सीआईडी विनोद कुमार सिंह, सहायक उप निरीक्षक एसबी सेवाराम मैथिल, प्रधान आरक्षक रेडियो सुरेन्द्र

आरक्षक ईओडब्ल्यू मदन मुरारी शुक्ला को सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पढ़क प्रदान

### जेल विभागः सराहनीय सेवा पदक

मुख्य प्रहरी (सेवानिवृत्त) जेल मुख्यालय इकबाल अहमद, मुख्य प्रहरी केन्द्रीय जेल अजय बहादुर सिंह, मुख्य प्रहरी देवास रामेश्वर झॉॅंणयों, मुख्य प्रहरी सिवनी हेमराज पटेल, मुख्य प्रहरी केन्द्रीय जेल उजीन ओमप्रकाश सिंह, प्रहरी केन्द्रीय जेल रामपाल सिंह, प्रहरी मुख्य प्रहरी सब जेल लवकुशनगर राम बहादुर कोल, मुख्य प्रहरी सब जेल लखनादौन घनश्याम भाजीपाले. प्रहरी केन्द्रीय जेल इंदौर ईश्वरलाल शर्मा, मुख्य प्रहरी केन्द्रीय जेल रीवा वाल्मिक प्रसाद त्रिपाठी प्रहरी केन्द्रीय जेल रीवा श्यामसुंदर दुबे, प्रहरी केन्द्रीय जेल भोपाल तौसीफ अहमद, सहायक ग्रेड-1 जेल मुख्यालय दिनेश सिंह रावत और कार्यपालन यंत्री जेल मुख्यालय संजीव खरे को जेल विभाग की सराहनीय सेवा पढ़क प्रदान किया गया।

### नगर सेना तथा नागरिक सुरक्षा सराहनीय सेवा के लिए पदक

डिवीजनल कमाण्डेन्ट होमगार्ड ग्वालियर मनीष सिंह चौहान, डिवीजनल कमाण्डेन्ट होमगार्ड शहडोल महेश कुमार पन्द्रे, डिवीजनल कमाण्डेन्ट होमगार्ड उज्जैन श्रीमती प्रीतिबाला सिंह. डिवीजनल कमाण्डेन्ट होमगार्ड भोपाल उषा डामर, डिस्ट्रिक्ट कमाण्डेन्ट होमगार्ड पन्ना लोकनाथ बागरी, डिस्टिक्ट कमाण्डेन्ट होमगार्ड सागर संतोष कुमार शर्मा, कम्पनी कमाण्डर एसडीईआरएफ ग्वालियर जितेन्द्र कुमार त्रिपाठी, कम्पनी कमाण्डर होमगार्ड सागर भगवत प्रसाद नामदेव, उप निरीक्षक (एम) होमगार्ड उज्जैन भारत सिंह हारी को नगर सेना तथा नागरिक सुरक्षा सराहनीय सेवा के लिए पढ़क प्रदान किया गया।

# तन्खा ने सीएम को लिखा पत्र, कहा कारम बांध और ई-टेंडर घोटाले की सीबीआई-ईडी से जांच कराई जाए ई-टेंडर की प्रक्रिया में हिस्सा लिया के टेंडर में गड़बड़ी हुई है। एक

भास्कर ब्यूरो भोपाल

राज्यसभा सांसद और सीनियर वकील विवेक तन्खा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को प्रत्र लिख कर अनुरोध किया है कि धार जिले

के कारणों की संयुक्त जांच केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई-ईडी से करवाई जाए। श्री तन्खा ने पत्र में लिखा है कि यह चिंताजनक है कि कारम नदी पर बांध आखिरकार पहली बारिश क्यों नहीं संभाल पाया। इस बांध से क्षेत्र के 50 गांवों के किसानों को काफी उम्मीदें थीं, लेकिन क्षेत्रीय लोगों है कि विगत कुछ वर्षों के दौरान मध्यप्रदेश में ई-टेंडर में अनाधिकृत छेडछाड की एक परंपरा रही है,

था किंतु असफल रहने पर जब इसके कारणों की जांच कराई तो ई-टेंडर प्रक्रिया में छेड़छाड़ सामने आई। श्री तन्खा ने लिखां है कि, कारम बांध भ्रष्टाचार की भेंट चढा

निर्माण का ठेका दिया गया। ब्लैक लिस्टेड कंपनी ने दूसरी ब्लैक लिस्टेड कंपनी से बांध का निर्माण कराया। सीएम हाउस के अधिकारी भी इस घोटाले में शामिल है। 2022 में विधानसभा में जल संसाधन मंत्री ने मुद्दा उठाया था। इसके बावजूद जिम्मेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। तंखा ने पत्र में लिखा है कि अप्रैल 2018 में प्रदेश में ई-टेंडर घोटाला सामने आया था। उस समय ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल में छेडछाड कर 3 हजार करोड के टेंडर में गड़बड़ी की गई थी। इस बांध का ठेका भी इसी ई-टेंडर का काफी नुकसान कर दिया। श्री घोटाले से जुड़ा हुआ है। 2018 में तन्खा ने लिखा कि प्रदेश जानता कारम बांध निर्माण का कार्य एक कंस्टक्शन को दिया गया था. किया, बल्कि उसने इसे एक और इसके बारे में सर्वप्रथम जानकारी ग्वालियर की एक ब्लैकलिस्टेड में भी शासन द्वारा जारी किए गए किया था कि कारम डैम प्रोजेक्ट नहीं है।

ब्लैकलिस्टेड कम्पनी द्वारा किये गए कार्य में गुणवता के साथ कितना समझौता किया गया होगा। यह बांध की हालत बयां करती है। मुझे प्राप्त जानकारी के अनुसार कारण है। ब्लैक लिस्टेड कंपनी को बांध बांध निर्माण के टेंडर में मुख्यमंत्री कार्यालय के कुछ अधिकारी भी शामिल थे यह घोटाला अन्य परंपरागत घोटालों से अलग है. क्योंकि इसमें रिश्वत पहले तय की गयी उसके बाद बचे हुए पैसों से निर्माण कार्य करवाया गया। शायद इसी बन्दर बांट का ही परिणाम था कि स्थानीय लोगो द्वारा बांध निर्माण कार्य में घोटाले की शिकायत को लगातार नजर अंदाज किया जाता रहा। उन्होंने लिखा कि शासन स्तर पर इस घोटाले की प्रारंभिक जांच लोक निर्माण विभाग के कार्यालय द्वारा कराई गयी और प्रथम दुष्टया टेंडरिन प्रक्रिया में छेडछाड सामने आयी थी। इसके शिकायतकर्ता ने इसका स्क्रीनशॉट भी अधिकारियों ब्लैक लिस्टेड कंपनी एएनएस को उपलब्ध कराया था. जिसमे निविदा प्रक्रिया में वर्षों से चले आ हस्तक्षेप के माध्यम से टेंडर में लेकिन उसने यह कार्य खुद नहीं रहे गड़बड़ी के खेल से करोंडों के ठेके चुनिंदा अधिकारियो द्वारा अपने चहेतों को दिए जाने की बात सामने तब सामने आई जब भारत की एक कंपनी सारथी कंस्ट्रक्शन को आयी थी कुछ चहेते चिन्हित भी विश्व स्तर की प्रसिद्ध कंपनी जो पेटीकॉन्टैक्ट में दे दिया। प्रदेश के किये गए थे जिनको अंततः ठेके आधारभृत संरचना और निर्माण जल संसाधन मंत्री ने भी 10 मार्च दिए जाते थे। इन चहेतों का नाम के क्षेत्र में अग्रणी है जिसने पूर्व 2022 को विधानसभा में स्वीकार उजागर करना भी कोई कठिन कार्य

# 24 घंटे में पेश करो ग्वालियर संभाग में नर्सिंग कॉलेजों की जाँच रिपोर्ट

संवाददाता। जबलप्र। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में में हुई सुनवाई में नर्सिंग काउंसिल की ओर से हाईकोर्ट बधवार को प्रदेश में संचालित निजी नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता में हुए फर्जीवाड़े के मामले पर सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस रवि मलिमठ व जस्टिस विशाल मिश्रा शपथ पत्र पेश किया। याचिकाकर्ता ने आपत्ति जताई कि ग्वालियर हाईकोर्ट के निर्देश पर हुई जाँच की रिपोर्ट पेश नहीं की गई। इस पर कोर्ट ने नर्सिंग काउंसिल को उक्त रिपोर्ट पेश करने के लिए एक दिन की मोहलत दी। पूर्व

को बताया गया था कि ग्वालियर हाईकोर्ट के निर्देश पर हुई जाँच के आधार पर ग्वालियर संभाग में स्थित 70 र्नर्सिंग कॉलेज अपात्र पाए गए। उनकी मान्यता समाप्त की खंडपीठ को नर्सिंग काउंसिल की ओर से पेश हुए की गई। उसी प्रकार शेष जिलों में भी जाँच टीम बनाकर अतिरिक्त महाधिवक्ता स्विप्नल गांगुली ने जवाब व जाँच की अनुमित कोर्ट से चाही गई थी। याचिकाकर्ता अधिवक्ता विशाल बघेल की ओर से दस्तावेज पेश कर कोर्ट को बताया गया था कि ग्वालियर संभाग में नर्सिंग काउंसिल की जाँच टीम ने जिन कॉलेजों को क्लीनचिट दी है. वहाँ फर्जी फैकल्टी कार्यरत हैं।

# मंत्री-ईएनसी से लेकर ईई तक सबको देखना था बांध, किसने की लापरवाही, जांच टीम बताएगी

# 304 करोड़ में बन रहे कारम बांध के टूटने की जांच के लिए टीम आज जाएगी

भारकर न्यूज भोपाल। धार जिले की कारम नदी पर 304 करोड रुपए की लागत से बन रहे कारम बांध के टटने के लिए जिम्मेदार कौन है, यह तय करने के लिए बुधवार को चार सदस्यीय जांच दल रवाना हो रहा है। दल पांच दिन में अपनी रिपोर्ट देगा, लेकिन इससे पहले की पड़ताल में सामने आया कि मंत्री, अपर मुख्य सचिव और ईएनसी से लेकर ईई व इनकी टीम तक सभी के पास बांध के संबंध में कोई न कोई जिम्मा था। जांच दल यह देखेगा कि गलती किसके स्तर पर हई। मख्यमंत्री ने जल संसाधन विभाग के अपर सचिव आशीष कुमार की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है. जिसमें राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान के क्षेत्रीय केंद्र भोपाल के वैज्ञानिक डॉ. राहुल जायसवाल, ब्यूरो ऑफ डिजाइन एंड हाइडल (जल संसाधन विभाग) के मुख्य अभियंता दीपक सातपुते एवं बांध सुरक्षा बोधी भोपाल के संचालक अनिल सिंह को रखा गया है।ह टीम अपनी रिपोर्ट में यह भी बताएगी कि बांध के क्षतिग्रस्त होने के कारण क्या थे? भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं का दोहराव न हो, इसके भी सुझाव देगी।

सवाल- केंद्रीय जल आयोग के बड़े बांधों की सूची में कारम डैम का नाम क्यों नहीं? जवाब- यह जो जल आयोग वाले तथ्य आप मुझे बता रहे हैं वॉट्सएप कर दें। मैं इसकी जांच करवा लुंगा?

मंत्री सिलावट से बातचीत

सवाल- सीडब्ल्यूसी से अप्रूवल निर्माण से पहले क्यों नहीं लिया गया?

जवाब- मैं एक-एक तथ्य की जांच करवाऊंगा। पहले यहां की व्यवस्था तो देखूं!

सवाल - एक तरफ से डैम कैसे फूट गया? जवाब - लोगों ने यह अफवाह फैलाई कि डैम फूट गया, जबकि हमने साइड से चैनल बनाई और पानी निकाला। पानी तेज गति से निकला, इसलिए थोड़ा नुकसान हुआ, जिसकी हम भरपाई कर रहे हैं।

संवाल - डैम के निर्माण में भ्रष्टाचार की बात सही है? उन्होने सवाल सुनकर फोन काट दिया।

# किसके पास क्या काम था, किस पर गिरेगी गाज

डीजी होमगार्ड पवन जैन, डीजी जेल अरविंद कुमार तथा अन्य पुलिस अधिकारी-कर्मचारी एवं उनके परिजन उपस्थित थे।

- **ठेकेदार कंपनी** : एएनएस कंस्ट्रक्शन कंपनी और उसकी सबलेटिंग फर्म सारथी कंस्ट्रक्शन। इसका जिम्मा गुणवत्ता से लेकर समय पर बांध के निर्माण का था।
- **ेकार्यपालन यंत्री (ईई)** : बांध के कामकाज के इंचार्ज। इनके अंडर में एसडीओ और सब इंजीनियर होते हैं. जो रोजाना की प्रक्रिया में बांध से जड़े रहे।
- अधीक्षण अभियंता (एसई) : सुपरविजन इनका होता है। कहां गलती हो रही है, तुरंत बताना होता है।
- **मुख्य अभियंता (सीई)** : प्रोजेक्ट का कंट्रोल इनके पास होता है। एक-दो दिन में गणवत्ता से लेकर कामकाज की रिपोर्ट इन्हें ली लेनी होती है।
- प्रमुख अभियंता (ईएनसी) : भोपाल में बैठते हैं, लेकिन हर माह प्रोजेक्ट के संबंध में सीई, एसई और ईई से संपर्क रखने का काम। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में समस्या पूछना और गाइड करने का काम। ईएनसी एमएस डावर का कहना है कि उन्होंने समय-समय पर सुझाव दिए हैं। जल संसाधन मंत्री : हर दो माह में रिव्यू करने के साथ निर्माण स्थल का दौरा करना। गुणवत्ता की निगरानी रखना। विशेषज्ञों से बात करते रहना।

# मालगाड़ी के 2 इंजन डिरेल, ठप रहा परिचालन

सतना। प्रयागराज से सतना आ रही मालगाड़ी के 2 इंजन सतना रेलवे जंक्शन यार्ड में मुख्त्यारगंज फाटक के पास डिरेल हो गए। डिरेल मालगाड़ी के डिब्बें क्रासिंग लाइन में फंसे होने से अप और डाउन रेललाइन डेढ़ घंटे ठप रहने से ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहा है। दुर्घटना के बाद स्टेशन में हूटर बजाया गया और रेलवे अधिकारी घटना स्थल पर पहुंच गए। मंडल रेल प्रबंधक ने मालगाड़ी के इंजन डिरेल होने की जांच के लिए 4 सदस्यीय टीम गठित की है। घटना स्थल पर एडीईएन राजेश पटेल, एडीईएन आरपी मीणा, एरिया मैनेजर रोहित सिंह, स्टेशन प्रबंधक पीके अवस्थी रेलयातायात टीआई, आरपीएफ पोस्ट प्रभारी बब्बन लाल समेत अन्य रेलवे अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे।जानकारी के अनुसार प्रयाराज से सतना आ रही 58 डिब्बों की मालगाड़ी (वीसीएन एचएल) मंगलवार दोपहर 3 बजकर 5 मिनट पर जैसे ही अप और डाउन लाइन की क्रासिंग कर आरडी-5 लाइन के पास पहुंची तो पहले इंजन के पिछले चके और दूसरे इंजन के पहले पहिए डिरेल हो गए। लोकोपायलट ने तुरन्त मालगाड़ी को रोककर रेलवे अधिकारियों को सूचना दी।

कुमार मिश्रा, (कार्यवाहक) प्रधान आरक्षक

ईओडब्ल्यू प्रेमलाल तिवारी, (कार्यवाहक)

प्रधान आरक्षक प्रशासन उवेस खान और

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पुलिस बल, होमगार्ड और जेल विभाग के जवान विशिष्ट काम कर प्रदेश की सुरक्षा का दायित्व भली-भॉति निभा रहे हैं। हाल ही में

धार जिले के कारम बांध की घटना में जवानों ने मुस्तैदी से कार्य कर गाँव खाली कराने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। मुख्यमंत्री चौहान निवास कार्यालय में वीरता, विशिष्ट

सेवा और सराहनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति पढ़क प्राप्त करने वाले पुलिस, नगर सेना और जेल विभाग के 78 अधिकारी-कर्मचारियों तथा उनके परिजन के स्वागत और सम्मान

समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री चौहान की धर्मपत्नी श्रोमती साधना सिंह, पुलिस महानिदेशक सुधीर कुमार सक्सेना, विशेष पुलिस महानिदेशक मिलिन्द कानस्कर,

रेंडियो भरत कुमार मजुमदार, आरक्षक (एम)

पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान जबलपर (संसदीय अधिनियम द्वारा स्थापित राष्ट्रीय महत्व का संस्थान)

डमना एयरपोर्ट रोड, पो.ऑ. खमरिया, जबलपुर- 482005(म.प्र.)

एम.टेक/एम.डेस पाढ्यक्रम हेतु प्रवेश सूचना (स्पॉट राउंड)

संस्थान एम.टेक/एम.डेस (नियमित/अंशकालिक) पाठ्यक्रम हेत् सत्र 2022-23 में प्रवेश के लिए ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित करता हैं। पात्र उम्मीदवारों के लिए संस्थान में स्पॉट राउंड आयोजित किया जावेगा, जिस हेत् ऑनलाईन आवेदन 18-21 अगस्त 2022 (रात्रि 11:59 तक) के मध्य करना अनिवार्य है। विस्तृत विवरण एवं प्रवेश प्रक्रिया संस्थान की वेबसाइट www.iiitdmj.ac.in पर उपलब्ध है। संयक्त कुलसचिव (अकादिमक)

### जयप्रकाश पॉवर वैन्चर्स लिमिटेड

सी आई एन: L40101MP1994PLC042920

पंजीकृत कार्यालय: जेपी निगरी सुपर धर्मल पावर प्लांट परिसर, र्निंगरी, तहसील सराई, जिला सिंगरीली–486 669 (मध्य प्रदेश) दुरभाष : +91 (7801) 286021-39, फैक्स :+91 (7801) 286020 **कॉर्पोरेट कार्योलय :** 'जेए' हाउस, 63, बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली—110057 दूरभाष: +91(011)49828500 फेक्स: +91(011)26145389 वेबसाइट :www.jppowerventures.com, ई मेल: jpvl.investor@jalindia.co.in

1. भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र सख्या SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 दिनाकित 12 मह. 2020 SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 दिनांकित 13 जनवरी, 2021 औ SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 दिनांकित 13 मई, 2022, ("संबी परिपत्र") और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी साधारण परिपन्न संख्या 14/2020, 17/2020 20 / 2020, 02 / 2021 एवं 02 / 2022 दिनांकित 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 05 मई 2020, 13 जनवरी, 2021 और 05 मई, 2022, क्रमशः ( एमसीए परिपत्रों ), के साथ पढे जाते हये सेबी सूचीकरण दायित्वों और प्रकटीकरणं आवश्यकताओं ) विनियम, 2015 और कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत बनाये नियमों और लागू प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी की 27° वार्षिक साधारण सभा (स.त.१ इं सवीं एजीएम) शनिवार, 24 सितम्बर, 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एवं अन्य ऑडियो विडियो माध्यमों ("वीसी / ओएवीएम") एक ही जगह पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना बुलाई गयी है।

- १. एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्र के अनुरूप 27<sup>8</sup> एजीएम का नोटिस, और वर्ष 2022 की वार्षिक विवरणी जिसमें 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष की वित्तीय समीक्षा सलंग्न है (वार्षिक विवरणी), ई मेल के द्वारा केवल उन सदस्यों को भेजा जायेगा, जिनका ई मेल पता कंपनी के पास अथवा उनके संबंधित निक्षेपकर्त्ताओं (डिपॉजिटरी) के पास पंजीकृत है। सदस्य 27° एजीएम में वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से शामिल और भाग ले सकते हैं। 27 एजीएम में शामिल होने और 27 एजीएम में ई-मतदान प्रक्रिया द्वारा अथवा दरस्थ ई—मतदान में भाग लेने के तरीके हेत निर्देश 27 एजीएम के नोटिस में दिये जायेंगे कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अंतर्गत वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों की गणना कोरम के निर्धारण के उद्धेश्य से की जाएगी। 27 एजीएम का नोटिस और वार्षिक विवरणी कंपनी की वेबसाईट www.jppowerventures.com और बीएसई लिमिटेड की वेबसाईट यानि www.bseindia.com और एनएसई की wwww.nseindia.com पर डाउनलोड़ के लिये उपलब्ध होगी
- भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य, जिन्होंने अपना ई मेल पता कंपनी के साथ पंजीकृत नहीं किया है, अपना ई मेल पता कंपनी के पास निम्नलिखित दस्तावेजों की स्कैनड प्रति ई मेल के द्वारा www.jpvl.investor@jalindia.co.in पर भेजकर पंजीकृत कर
- a) अपना नाम, फोलिओं संख्या और पूरा पता लिखकर हस्ताक्षरित आवेदन पत्र b) पैन कार्ड की खयं हस्ताक्षरित स्कैनंड प्रति और सदस्य के कंपनी के पास पंजीकृत पते के
- c) किसी भी दस्तावेज ( जैसे आधार कार्ड, ढ्राइविंग लाइसेंस, चुनाव पहचान पत्र, पासपोर्ट की स्वयं हस्ताक्षरित स्कैनड प्रति ।. डिमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी के साथ अपना ईमेल पता / इलेक्ट्रॉनिक बैंक जनादेश सामियक करें।
- 5. सदस्यों का रजिस्टर और कंपनी की शेयर अंतरण पुस्तकें 22.09.2022 से 24.09. 2022, (दोनों दिवस सहित) हेत् बंद रहेगी। उपरोक्त जानकारी कंपनी के सभी सदस्यों की जानकारी और लाभ के लिए जारी की जा रही है और एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्रों के अनुपालन में है।

कृते जयप्रकाश पॉवर वैन्चर्स लिमिटेड

दिनांक : 16 अगस्त, 2022 **TAYPE**E

महेश चतुर्वेदी महाप्रबंधक एवं कंपनी संचिव सदस्य सख्या एफसीएस-3188

# **ब्ला सी एल** नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

(मिनिरत्न कंपनेी) (कोल इण्डिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी)

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा CBA(A&D) Act,1957 की धारा 9(1)के तहतजारी अधिसूचना संख्या 3065 दिनांक 20.10.2011 द्वारा जयंत परियोजना हेतु भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियों जैसे मकान, कुए एवं बोरवेल इत्यादि का अर्जन किया गया है।जिनका मुआवजा निम्नांकित अनुसूची Aके कॉलम नं॰3 में दिये गये भूस्वामियों के नाम से स्वीकृत है, जो मृतक है एवं **अनुसूची – B** के कालम नंबर 4 में दिये गए गृहस्वामियों के नाम से स्वीकृत है,जो मृतक है। अनुसूची- A एवं अनुसूची- B में दर्शाये गये व्यक्तियों ने सम्बंधित मृतक भूस्वामियो/ **गृहस्वामियो** के वैध उत्तराधिकारी के रूप में अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है एवं उनको मुआवजा भुगतान करने की मांग

अतः यदि किसी अन्य व्यक्ति को मुआवजे के संबंध में दावेदारी है या किसी प्रकार की आपत्ति है तो वह समाचार पत्र में प्रकाशन तिथि के 15 दिन के अंदर अपनी लिखित दावेदारी या आपत्ति महाप्रबंधक/ स्टाफ अधिकारी(खनन) जयंत परियोजना के कार्यालय, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड पोस्ट जयंत जिला सिंगरौली (म.प्र.) पिन नंo 486890में दर्ज कराये।यदि उक्त निर्धारित अवधि के अंदर कोई आपत्ति या दावेदारी प्राप्त नहीं होती तो उसके पश्चात कोई दावेदारी आपत्ति मान्य नहीं होगी और मुआवजे का भुगतान **अनुसूची-A एवं अनुसूची-B में** उल्लेखित सम्बंधित दावेदार व्यक्तियों

भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियों जैसे मकान,कुए एवं बोरवेल इत्यादि के मुआवजा भुगतान हेतु निम्नलिखित मृतक भुस्वामी/गृहस्वामी के बने प्रतिकर के दावेदार/दावेदारों वैध उत्तराधिकारियो को सुचित किया जाता है कि यह सुचना प्रकाशन के 15 दिन बाद जयंत परियोजना के राजस्व विभाग कार्यालय जो की आवास क्रमांक सी-21 (C-21) में स्थित है में उपस्थित होकर अपना-अपना मुआवजा प्रक्रिया पूर्ण करावे। इस सूचना के अतिरिक्त प्रतिकर भुगतान संबंधी अन्य कोई जानकारी हेतु जयंत परियोजना के राजस्व विभाग कार्यालयमें संपर्क कर सकते है।

S 10	अनुसूची-A: मृतक काश्तकारो के संबंध में					
क्र.	भूमि प्रकरण संख्या	मृतक काश्तकार का नाम (खसरा के अनुसार)	खसरा संख्या	रकबा (हेक्टेयर में	मृतक काश्तकार के दावेदार/दावेदारों का नाम व पिता का नाम (सजरा के अनुसार)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1.	795	बोड़ई पिता गजाधर खैरवार	396/2 , 414/3 , 416/2	0.865	1.रूकमनी देवी (पत्नी मौ.) 2.शिव प्रसाद खैरवार (पुत्र मौ.) 3.जय प्रकाश (पुत्र मौ.) 4.उर्मिला देवी (पुत्री मौ.) 5.मुन्नी खैरवार (पुत्री मौ.) 6.बड़की खैरवार (पुत्री मौ.) 7.रोशनी (पुत्री मौ.) 8.संजय प्रसाद खैरवार (पुत्र मौ.)	
अस्मानी है। सबस सबस्यारिकों ने संबंध में						

1 1	(3)
अनुसूची-B: मृ	तक गृहस्वामियो के संबंध में

महा प्रबन्धक (जयन्त) परीयोजना

क्र.	प्रकरण संख्या	मकान नं.	मृतक गृहस्वामी का नाम	मृतक गृहस्वामी के दावेदार/दावेदारों का नाम व पिता का नाम (सजरा के अनुसार)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	4746	3065	आत्माराम पिता राम जियावन	1.वासमती (पत्नी मौ.) 2.राजकुमार (पुत्र मौ.) 3.ललित कुमार (पुत्र मौ.) 4.शिवकुमारी (पुत्री मौ.)
2.	2602	1436	राधेश्याम साहू पिता जमूना प्रसाद साहू	1.कुसम शाह (पत्नी मौ.) 2.प्रियांशु शाह (पुत्री मौ.) 3.इशिका शाह (पुत्री मौ.)
3.	4252	2320	देव कुमारी पत्नी श्री तिलकधारी यादव	<ol> <li>अंजनी यादव (पुत्र मौ.)</li> <li>सन्ता राम यादव (पुत्र मौ.)</li> <li>शंकर यादव (पुत्र मौ.)</li> <li>जगमती (पुत्री मौ.)</li> <li>मानमती (पुत्री मौ.)</li> <li>बासमती देवी (पुत्री मौ.)</li> </ol>
4.	1525	285A	उषा कुमारी पत्नी स्व० यादवेन्द्र सिंह खैरवार	1.अहिल्या देवी (पुत्री मौ.)
5.	2391	1911A	धर्मजीत कुशवाहा पिता स्व० गया प्रसाद कुशवाहा	1. हीरामती कुशवाहा (पत्नी मौ.) 2 .राजेंद्रप्रसाद कुशवाहा (पुत्र मौ.) 3. राम कुमार कुशवाहा (पुत्र मौ.) 4. देव कुमार कुशवाहा (पुत्र मौ.) 5. कुसुमदेवी कुशवाहा (पुत्री मौ.) 6. लाल कुमारी कुशवाहा (पुत्री मौ.) 7. राज कुमारी कुशवाहा (पुत्री मौ.)

www.readwhere.com

**Hong Kong Is World's Costliest City For Expats** 

Hong Kong is the least affordable city for foreign employees, according to Mercer's Cost of Living Index. It ranked more than 200 cities from across the globe based on the prices

TIMES BUSINESS

# Max Health, HDFC AMC see block deals worth ₹11.5k cr

### KKR Sells 27% In Max, ABRDN Cuts Stake In Assets Co Too

TIMES NEWS NETWORK

of more than 200 items

Mumbai: Two block deals, together worth nearly Rs 11,500 crore, were executed on the BSE on Tuesday morning. Through one block deal, private equity (PE) KKR sold about 27% in Max Healthcare Institute for nearly Rs 9,200 crore. In the second, ABRDN Investment Management (formerly Standard Life Investment of UK) sold around 6% in HDFC Asset Management Company (AMC) for about Rs 2,300 crore.

The Max Healthcare block deal was the biggest in more than a year. Together, the total block deal value is the biggest in about two years.

KKR, through one of its arms, sold a little over 26 crore shares, translating into about 27% in Max Healthcare. According to the company's shareholding pattern disclosed to the BSE, as of June-end, Kayak Investments Holdings, one of KKR's arms. had about 26.7 crore shares of the hospitals chain. Althoughseveralnews reports said that KKR had fully exited Max Health through Tuesda-

### **BIGGEST IN ABOUT 2 YEARS**

BLOCK DEALS ON BSE ON TUESDAY No. of shares 1.2CF No. of shares **Total deal value** ₹9,187cr 26cr ₹2,303cr Seller | Kayak Seller | Investments Holding ABRDN (KKR arm) Investment

y's deal, BSE disclosures show the PE giant may be still holding about 70 lakh shares.

Top buyers | New World Fund, Smaller

(Hong Kong), Singapore govt, Monetary

Authority Of Singapore, BNP Paribas

Cap World Fund, Ward Ferry Management

The buyers, as disclosed by the BSE, were New World Fund, Smaller Cap World Fund, Ward Ferry Management, BNP Paribas, the Singapore government and the Monetary Authority of Singapore. According to trading disclosure rules, in case of block and bulk deals, only those trades accounting for 0.5% or more of the equity capital of the company are disclosed after the close of the day's trading.

In 2018, KKR had bought over the healthcare division of the Delhi-based Max Group and merged it with another of

its portfolio companies. Radi-

ant Life Care. It had 45.6 crore

shares, or about 47%, in the

merged entity that was rech-

Management

**Buvers** not

disclosed

ristened Max Healthcare. The cost of acquisition for KKR was Rs 80 per share. In the last one year, the  $\ensuremath{\mathrm{PE}}$ major has been diluting its stake in the hospitals chain. Between January and March this vear, it had sold about 10 crore shares. BSE data showed. The

about Rs 3.300 crore. Prior to that, in September last year, it had sold about 8.4 crore shares for nearly Rs 3.000 crore.

Soon after the block deal on the BSE on Tuesday morning, the stock price of Max Healthcare fell about 1%. However, it soon recovered and closed the session up over 9.7% at Rs 397.

In the other block deal, ABRDN Investment, which is one of the promoters of HDFC AMC, sold nearly 1.2 crore shares of the fund house, translating into about 5.6% of the company, for a little over Rs 2,300 crore. The stake was sold at a per-share price of Rs 1,936. The BSE didn't disclose the names of the buvers

According to shareholding disclosures on the BSE, as of June-end, ABRDN was holding 16.2% in India's third-largest fund house by assets under management. Like Max Healthcare, after the block deal and an initial dip, the stock price of HDFC AMC also rallied. After recording an intraday low of Rs 1,936, the stock closed at Rs

# total value of that deal was 2,181, up 11.5% on the day.

### Adani to buy container depot in Guj for ₹835 crore

Reeba.Zachariah @timesgroup.com

Mumbai: Adani Ports will buy a container storage facility in Gujarat from Navkar Corpora tion for Rs 835 crore, ramping up its logistics infrastructure play. The storage facility in Va pi, with a capacity of half a million 20ft-equivalent units (TE Us), did a turnover of Rs 403 crore in fiscal 2022.

The deal, which is being executed through Adani Logistics, a wholly owned subsidiary of Adani Ports, is expected to be completed before the end of this year. Adani Logistics had a turnover of Rs 838 crore in fiscal 2022. Navkar is transferring the business — including its title, rights, interests and operations — to Adani on a slump sale basis. A slump sale means transfer of a business unit of a company for a lump sum without assigning any values to individual assets and liabilities of the entity.

Navkar said in addition to the deal value of Rs 835 crore, Adani will pay a consideration for trade receivables and inventories to the company. Navkar will use the sale proceeds to settle its debt, becoming a "100% debt-free company". The remaining amount will be used for its upcoming container storage facility and freight station in Manaba, Gujarat, it added.

Once the sale of the Vapi facility is completed, Navkar will be left with three operational container freight stations in Panyel, near Mumbai.

# WPI inflation eases to 5-mth low of 13.9%

**But Stays In Double Digits For 16th Mth In July | Falling Food, Commodity Prices Help** 

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: Wholesale price inflation moderated to a five-month low in July on the back of easing food and commodity prices, providing some relief from stubborn price pressures but stayed in double digits for the 16th month in a row.

Data released by the commerce and industry ministry on Tuesday showed inflation, as measured by the Index Wholesale Price (WPI), rose an annual 13.9% in July, lower than the 15.2% in the previous month. The inflation rate was at 11.6% in July 2021. Inflation in July, 2022 is primarily contributed by rise in prices of mineral oils, food articles, crude petroleum and natural gas, basic metals, electricity, chemicals & chemical products. and food products as compared to the corresponding month of the previous year, according to the official statement. The May inflation number was revised to 16.6% from the earlier 15.9%.

The data showed food inflation dipping to single digits in July while core inflation (minus food and fuel) slowed to 8.4% — a 16-month low. Vegetable prices cooled amid fresh supplies with tomato prices falling sharply. Potato prices remained stub-



WPI-based inflation (%) for July, 2022 Fuel & Power 43.8 Potato 53,5

born, rising 53.5%. Inflation in fruit rose 29.4%. Edible oil prices, which had soared due to supply constraints, have cooled sharply as government measures to rein in prices helped. Fears of a global slowdown have softened commodity prices, which is having a cooling impact on domestic prices.

Last week, data showed retail inflation moderated to a five-month low in July on the back of easing of food prices, bringing much needed relief for policymakers battling price pressures. But the overall number still remained above the Reserve Bank of India's (RBI's) upper tolerance level for the seventh consecutive month.

The central bank has raised interest rates sharply to tame price pressures. Globally, inflation has emerged as a major policy challenge, which has prompted central banks to sharply hike interest rates to rein in prices.

"The correction in global commodity prices is expected to translate rapidly into lower WPI inflation. We expect the WPI inflation to ease to ~12-13% in August 2022 and average at ~13% in Q2 FY2023, lower than the 15.7% seen in Q1 FY2023. We see a likelihood of the first single-digit WPI inflation print by October 2022. after a gap of 18 months, if the downtrend in commodity prices sustains," ratings agency ICRA said in a note.

# Sensex gains 379 pts, nears 60k again on global, domestic cues

Mumbai: Strong global and domestic cues combined to take the sensex once again near the 60,000-point mark after a 379-point surge on Tuesday. With HDFC Bank, Reliance Industries and HDFC contributing the most, the day's close at 59,842 points was just about 1.3% away from the index's four-month closing high level of 60,612. On the NSE, the Nifty closed 127 points up at 17.825

According to Motilal Oswal Financial Services head (retail research) Siddhartha Khemka, domestic equities continued to witness strength on the back of posining of CPI and WPI inflation in India. "Global markets were positive after China announced a surprise cut in interest rates by 10 basis points (100bps = 1 percentage point). Oil prices continued to plunge as investors weighed on the impact of slowing growth on energy demand."

The government last we-

**Up 16% From June Low** — April 4 **60,612** 

ek said that India's consumer inflation for July had num. Although this was much above the RBI's threshold limit of 6%, the reading was a five-month low figure that enthused investors, market players said. In addition, on Tuesday the government said that the wholesale inflation too had moderated to 13.9%, from over 15% in June. This added to investors'

Rs 40 crore in the correspon-

ding quarter of previous year.

The company's losses for FY22

stood at Rs 218 crore on a top li-

er undergone restructuring un-

der the Sustainable Structu

ring of Stressed Assets (S4A

scheme). As part of this, the

company had issued optionally

convertible debentures (OCDs)

worth Rs 3,483 to lenders for

converting part of the debt into

the company's shares.

Bajaj Hindusthan had earli-

ne of Rs 5.569 crore.

Bajaj Hindusthan faces

SBI's insolvency plea

JUST LIKE THAT AJIT NINAN



optimism that the inflation rates in India had peaked and the RRI would be sing interest rates in its next rate-setting meetings.

July was the "second consecutive month of softening in inflation data". Khemka wrote in his post-market note. "It has led to the hope that inflation might have peaked out with the sharp cool-off in the commodity prices. Hence, expectation of a softer

Value of Jhunihunwala's stake (₹ cr)

Tata Motors 1,773

Crisil

IHCL (Taj) 826

NCC 516

Star Health

Fortis Healthcare 932

Federal Bank 836

Canara Bank 825

Metro Brands

stance by the RBI in its next MPC meeting.'

The day's session saw fofunds net-buying worth another Rs 1,377 crore. So far this month, foreign portfolio investors net-bought stocks worth nearly Rs 24,000 crore. CDSL and BSE data showed. In the short run, investors would be watching out for the minutes of the US Fed Reserve's last meeting that had decided to hike interest rate by 75bps. They would also be looking at how foreign funds trade in India, according to market players

Technically, the Nifty has held the higher bottom formation on intraday charts uld be the trend-decider level, said Kotak Securities he ad of equity research (retail) Shrikant Chouhan, "Above which, the index could hit the level of 17.900-17.925 range. On the flip side, a quick intraday correction is possible if the index trades helow 17.750 and below it could retest 17,700-17,650.

% change in stock price

0.9

2.1

# SBI, BoB hike FD rates under I-Day schemes

TIMES NEWS NETWORK

Mumbai: State Bank of India(SBI) and Bank of Baroda (BoB) have hiked deposit rates by creating a special category around the 75th Independence Day anniversary with rates touching 6% for

 $While\,SBI\,has\,launched\,a$ term deposit programme called Utsav Deposit, BoB has come out with a Baroda Tiranga Deposit Scheme. SBI said it offers 6.1% per

annum on fixed deposits with a tenor of 1,000 days The deposits will fetch an additional 0.5% for senior citizens. The rates are effective for 75 days. The bank has an nounced the scheme as part of the independence celebrations ('Azadi ka Amrit Mahotsav')

BoB has increased its fixed deposit rates by introducing a new category for 555 days, which will offer 6% interest. The bank has said this is a limited period offer, and the interest rate will be applicable between August 16th and December 2022. Without the special deposit scheme. the bank's highest return is

Banks' term deposits have been below the 6% mark for two years now as they were flush with funds after the RBI released liquidity to prevent credit markets from fre-

ezing. Although the RBI has raised the reporate by 140 basis points (100bps = 1 percentage point) this year, interest on bank deposits has not kept pace. This is because of the banking system's surplus liquidity, which keeps interest rates low. The best public sector banks are in the 5.5-5.75% range. Depositors are set to lose an avenue

### **RESTORING INTEREST**

**Public** Sector Banks 5.33

June '22 **5.17 Private** Sector Banks 5.53

term deposit rates: (Source: RBI

for relatively higher returns

**HDFC Bank** 

# Deposit interest rate (%)\*

on triple-A rated deposits with HDFC set to merge with

The weighted average deposit rate of public sector banks, which was 6.38% in March 2020, dropped to a low of 5.10% in February 2022. Since then, it has improved marginally to 5.17% in June. In the case of private banks. the average deposit rate has fallen from 6.54% in March 2020 to a low of 5.13% in April 2022 and has recovered to

### **SpiceJet** settles dispute with lessor

TIMES NEWS NETWORK

Mumbai: Bajaj Hindusthan

Sugar has informed the stock

exchanges that SBI has initia-

ted insolvency proceedings

against the company in the

National Company law Tri-

sed 5% lower at Rs 10 following

the disclosure. Bajaj Hindus-

tan had announced a loss of Rs

49 crore for the quarter ended

June 2022 as against a loss of

Shares of the company clo-

bunal, Allahabad.

New Delhi: SpiceJet on Tuesday said it has entered into a settlement with aircraft lessor Goshawk Aviation and its affiliated entities related to two Boeing 737 Max aircraft and one Boeing 737-800 NG aircraft. Goshawk Aviation is one of the main lessors of Max aircraft of SpiceJet, the airline's statement noted.

SpiceJet and Goshawk have agreed to settle all their disputes under the aircraft lease agreements for three aircraft, it said. "The agreement, the terms of which are confidential, ends all litigation proceedings between the parties (SpiceJet and Goshawk). All proceedings, including before the UK Court and execution proceedings before the Delhi HC will be withdrawn accordingly," it noted. AGENCIES

## You may get 10% hike this fiscal: Study TIMES NEWS NETWORK

Mumbai: Organisations are setting aside a higher budget for salaries this fiscal as some talent retention challenges of last year — including the 'great resignation' — continue to weigh on companies.

According to a WTW salary budget planning report, projected outlays for compensation in India are set to increase by 10% in 2023, given the tight labour market and rising inflation concerns. This is higher than the actual salary increase of 9.5% in 2022, and 8.5% in 2021.

Rajul Mathur, consulting leader India (work & rewards) at WTW, said, "The way of working has changed and flexibility has become a big driver. Employees have identified that it's easier to switch jobs than earlier and

#### BACK TO PRE-COVID LEVELS ➤ The higher projections for

**NO SELLOFF IN JHUNJHUNWALA'S STOCKS** 

Rakesh Jhunjhunwala's stock-picking prowess had earned him a

cult-like following. The slightest whiff of his trades often fuelled

scrips to surge till their daily limits. After the self-made billionaire

passed away on Sunday, market players were eager to see if the

stocks that were part of his portfolio faced any sentiment-driven

selloffs. However, Jhunjhunwala's top holdings didn't face any

How Jhunjhunwala's top 10 holdings performed on Tuesday

7,128


Rakesh

11,180

selling pressure in the first trading session since his death

3,313

1,312



2023 reflect cautious optimism and a tight labour market, despite economic headwinds > Over half (58%) of Indian employers have budgeted for a higher salary increase this year compared to last year, while a quarter of them (24.4%) are making no change

they have leveraged that situation." Due to a betterthan-expected business performance, 2022 saw actual salary increments being higher than the budget. Mathur said there was a need to retain talent.

The survey finds that information technology (65.5%), engineering (52.9%), sales (35.4%), technically skilled trades (32.5%) and finance (17.5%) will be most sought after functions for recruitment in the next 12 months. In the Asia-Pacific region, India continues to be the highest in salary increases.

According to the report, more than half (58%) of employers in India have budgeted for a higher salary increase this year compared to last year, while a quarter of them (24.4%) are making no change. Only 5.4% have reduced the budget as compared

to 2022. Approximately  $42\,\%$ have also projected a positive business revenue outlook for the next 12 month.

Despite economic head-

winds, the higher projections for 2023 reflect cautious business optimism and a continued tight labour market. "With such a dynamic business environment, coupled with a hot talent market, it is critical for organisations in India to develop a compensation strategy aligned with macro-economic realities, sector dynamics, business objectives and employee expectations We're seeing organisations focus on long-term incentiinnovative career growth opportunities, flexible working and overall wellbeing to grapple with the current talent supply challenges," said Mathur.

### **French BPM** firm plans to hire over 20k

Shilpa.Phadnis @timesgroup.com

Bengaluru: The \$8.4billion French BPM (business process management) firm Teleperformance plans to hire as many as 20,000-25,000 people in India over 18 months. This is expected to take its overall workforce in the country to over 1 lakh. Te leperformance rently has over 80,000 of its 420,000 employees in India.

The uptick in hiring is partially due to the tight talent market, which is resulting in higher attrition rates in IT and BPM firms

#### Tata backs co that links sr citizens & 'grandkids' Atatime when millions of

TIMES NEWS NETWORK

Chennai: Industry titan Ratan Tata has given seed money to Goodfellows, a startup launched on Tuesday that claims it can offer seniors needs. But none for loneliwhatever a grandchild can.

seniors in India are living alone, either due to loss of a partner or families moving away, there are various startups catering to their daily

# NOTIFICATION Online Applications are invited from NEET PG-2022 and NEET MDS-2022 qualified candidates for admissions into Post Graduate Medical and Dental Courses for filling up of

Management Quota [S1, S2(NRI)&S3(Institutional Quota)] seats in Private Un-aided Nor Pradesh for the academic year 2022-23. Schedule for Registration of online From 02.30 PM on 17-08-2022

application and uploading of scanned certificates For PG (Dental) courses Visit

05.00 PM on 29-08-2022 https://pgmq.ntruhsadmissions.com https://mdsmq.ntruhsadmissions.com

Visit University website http://ntruhs.ap.nic.in for detailed Notification/ Prospectus and Regulations Number of Colleges: PG (Medical)-16 (One Minority), PG (Dental)-13

Number of Courses: PG (Medical)-38, PG (Dental)-09

Cut-off date for completion of Internship for PG Medical/Dental: 31-07-2022. 50% of Seats in each speciality in each college are Management Quota Seats

The Seats are categorised into

(Endorsement No.1578/EA2/PG/2022, dt.16-08-2022)

 Management Quota Category–B (S1)–25%-will be filled through counselling by the candidates from all the States and Union territories of India on the basis of Meril among the applicants qualified in NEET PG-2022/NEET-MDS-2022. 2. Category-C (NRI- S2)-15%-will be filled through counselling by the NRI/NRI

I candidates on the basis of Merit among the applicants qualified in NEET PG-2022/NEET-MDS-2022. Category-C(Institutional Preference-S3)-10%-shall be filled with the candidates qualified in NEET PG-2022/NEET-MDS-2022 sponsored by the Managements of the

Private Colleges in the State of Andhra Pradesh. Sd/- (Dr.CH.SRINIVASA RAO) Date:16-08-2022

#### JAIPRAKASH POWER VENTURES LIMITED

CIN: L40101MP1994PLC042920 CIN: L40101MP1994PLC042920

Regd. Office: Complex of Jaypee Nigrie Super Thermal Power Plant,
Nigrie, Tehsil Sarai, District Singrauli – 486 669 (Madhya Pradesh),
Tel. No. +91 (7801) 286021-39, Fax: +91 (7801) 286020

Corporate Office: 'JA House' 63, Basant Lok, Vasant Vihar, New Delhi-110057
Phone: +91(011) 49828500 Fax: +91(011) 26145389

Website: www.jppowerventures.com, Email id: jpvl.investor@jalindia.co.in

### NOTICE TO THE MEMBERS OF 27 $^{ exttt{TH}}$ ANNUAL GENERAL MEETING

1. Notice is hereby given that the Twenty Seventh Annual General Meeting of the Company ("27" AGM") will be held on Saturday, the 24" September, 202: through Video Conference ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM" facility in compliance with the applicable provisions of the Companies Act 2013 and Pulse framed througher and the SEBI (it iting Obligations Act). tacility in compilance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular Nos.14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021 and 02/202 dated 8<sup>th</sup>April, 2020, 13<sup>th</sup>April, 2020, 5<sup>th</sup>May, 2020, 13<sup>th</sup> January, 2021 and 5<sup>th</sup> May, 2022 respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circular/s") and Circular NO.SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12<sup>th</sup> May, 2020, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 15<sup>th</sup> January, 2021 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated 13<sup>th</sup> May, 2022 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular") without the physical Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular"), without the physica presence of the Members at a common venue.

presence of the Members at a common venue.

2. The Notice of the 27"AGM and the Annual Report for the year 2022 including the financial statements for the year ended 31" March, 2022 ("Annual Report") will be sent only by email to all those Members, whose email addresses are registered with the Company or with their respective Depository Participants ("Depository"), in accordance with the MCA Circular/s and the SEBI Circular. Members can join and participate in the 27"AGM through VC/ OAVM facility only. The instructions for joining the 27"AGM and the manner of participation in the remote electronic voting or casting vote through the e-voting system during the 27"AGM will be provided in the Notice of the 27"AGM. Members participating through the VC/OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. The Notice of the 27"AGM and the Annual Report will also be available for download on the website of the Company i.e. www.jppowerventures.com and the website of BSE Limited i.e. www.bseindia.com. and NSE at www.nseindia.com.

 Members holding shares in physical form who have not registered their email addresses with the Company/Depository can register their e mail addresses with the Company by sending scanned copy of the following documents by email to jpvl.investor@jalindia.co.in:
 a. a signed request letter mentioning your name, folio number and complete address

self attested scanned copy of the PAN Card; and self attested scanned copy of any document (such as AADHAR Card, Driving License, Election Identity Card, Passport) in support of the address of the Member as registered with the Company. Members holding shares in demat form are requested to update their emai

address/ Electronic Bank Mandate with their Depository . The Register of Members and Share Transfer Book of the Company shal remain closed from 22.09.2022 to 24.09.2022 (both days inclusive). The above information is being issued for the information and benefit of all the Members of the Company and is incompliance with the MCA Circular/s and

For JAIPRAKASH POWER VENTURES LTD

Mahesh Chaturvedi

Place: New Delhi